

मैं/हम ऋणों और गारंटी (इसके बाद जिसे
" करार " कहा गया है) के लिए मिश्रित करार के मानदंडों के तहत आपकी ऋण सुविधा (इसके बाद जिसे " ऋण सुविधा " कहा गया है) का / के लाभार्थी हूँ/ हैं.
I/We am/are beneficiary of a loan facility (hereinafter referred to as "Loan facility") from you in terms of Composite Agreement for Loans and Guarantee (hereinafter referred to as "Agreement").
मेरा/ हमारा ऋण खाता है/My/our Loan Account is:
मैं/ हम आपसे अनुरोध करता/ करती हूँ/ करते हैं कि निम्न नाम के मेरे/हमारे खाता सं.
के नाम पर/in the name of:
धारक/Holder 1:
धारक/Holder 2:
धारक/Holder 3:
ऋण सुविधा की चुकौती के लिए करार के तहत किस्तों के भुगतान के लिए जो आपके पास धारित है, उसका विवरण नीचे दिया जा रहा है/Held with you for the payment of installments
under the Agreement for repayment of the Loan Facility, the details of which are given hereunder:
1. प्रथम उधारकर्ता का नाम/1 st Borrower Name:
2. किस्त की राशि / Installment Amount ईएमआई/ पूर्व—ईएमआई के अनुसार, यथासमय परिवर्तन के अधीन/As per EMI/ Pre-EMI, subjected to change as and when applicable
3. प्रभावी तारीख / Effective Date
मैंने/ हमने बैंक की नीति के अनुसार और किस्तों के भुगतान के लिए करार के तहत अपेक्षित चेक भी संलग्न किया है.
I/We, have also enclosed number of security cheques as is required as per the policy of the Bank and under the Agreement for
payment of installments. तथापि, बैंक के पास मेरे / हमारे द्वारा देव किस्तों के भुगतान के लिए मुझसे / हमसे संबद्ध अदाकर्ता बैंक में भुनाने हेतु चेकों को प्रस्तुत करने का पूर्ण विवेकाधिकार है. उन मामलों में जहां इस पत्र
के अनुसार किस्त का भुगतान मेरे/ हमारे खाते को नामे कर किया जाता है, वहाँ बैंक उपर्युक्त किस्त के भुगतान के लिए चेकों को प्रस्तुत नहीं करेगा.
The Bank Shall, however, have an absolute discretion in presenting the Security cheques for encasment in my/our respective drawee bank
for payment of installments due from me/us. In the event where the payment of the installments is made by debit to my/our account pursuant to this letter, the bank shall not present the Security cheques for payment of the very same installment.
ऐसे मामले में मैं/ हम बैंक को स्थायी अनुदेश मोड के तहत किस्तों के भुगतान को बंद करने का अनुदेश जारी करता/करती हूँ/ करते हैं. मैं /हम वचन देता /देती हूँ / देते हैं कि बैंक द्वारा मांगे जाने
पर बिना किसी विरोध/ विवाद / विलंब चाहे जो कुछ भी हो बकाया किस्तों के भुगतान के लिए चेकों को तत्काल प्रस्तुत / प्रदान करूंगा/ करूंगी/ करेंगे.
In the event I/we isse instructions to the bank for discontinuance of payment of the installments under the Standing Instruction mode. I/we
under take to furnish/provide Repayment cheque immediately upon demand being made by the bank, without any protest/contest/demur whatsoever for payment of the balance installments.
यह पत्र इस करार का एक अभिन्न भाग माना जाएगा/ This letter shall from part and parcel of the Agreement.
सधन्यवाद/ Thanking You,
भवदीय/ Sincerely,
धारक 1 के हस्ताक्षर / Holder 1 Signature धारक 2 के हस्ताक्षर / Holder 3 Signature धारक 3 के हस्ताक्षर / Holder 3 Signature
तारीख/Date: स्थान/Place:
बैंक उपयोग के लिए / For Branch Use: (आईडीबीआई बैंक शाखा अधिकारी द्वारा भरा और प्राधिकृत किया जाएगा / To filled in and Authorised by a IDBI Bank Branch Officer)
हम एतदब्रारा प्रमाणित करते हैं कि ग्राहक/ कों के उपर्युक्त उल्लिखित नामे खाते विवरण हमारे रिकॉर्ड के अनुसार सही है./ We hereby certify that the debiting account particulars of
the costumer/s furnished above are correct and as per our records.
बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर/
Signature of Authorised Official of the Bank
बैंक की मुहर / Bank Stamp
शाखा/ Branch:
पदनाम/ Designation: पदनाम/ Designation: ईआईएन/EIN:
\(\text{\text{II}\text{\tiny{\tiny{\tiny{\tiny{\text{\text{\tiny{\text{\tiny{\